



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 चैत्र 1946 (श0)

(सं0 पटना 341) पटना, सोमवार, 25 मार्च 2024

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

25 मार्च 2024

सं० 3/एच0-01/2023सा0प्र0-5109—भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा का आम निर्वाचन, 24 एवं 195-अगिऑव (अ0जा0), बिहार विधान सभा उप निर्वाचन, 2024 के लिए राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान की तिथि सात चरणों में क्रमशः दिनांक—19.04.2024, 26.04.2024, 07.05.2024, 13.05.2024, 20.05.2024, 25.05.2024 एवं 01.06.2024 को निर्धारित की गई है।

2. अतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-135 'ख' में निहित प्रावधानों तथा एन.आई. ऐक्ट, 1881 की धारा-25 के स्पष्टीकरण के आलोक में, निम्नांकित तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों तथा स्तम्भ-3 में अंकित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मात्र उनके सामने स्तम्भ-4 में अंकित मतदान की तिथि को, सवैतनिक सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है—

क्रमांक	संबंधित संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का संख्या एवं नाम	संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का संख्या नाम	मतदान की तिथि
1	2	3	4
प्रथम चरण	37-औरंगाबाद, 38-गया(अ0जा0), 39-नवादा, एवं 40-जमुई (अ0जा0)।	—	19.04.2024
द्वितीय चरण	10-किशनगंज, 11-कटिहार, 12-पूर्णियाँ, 26-भागलपुर, एवं 27-बाँका।	—	26.04.2024
तृतीय चरण	7-झंझारपुर, 8-सुपौल, 9-अररिया,	—	07.05.2024

क्रमांक	संबंधित संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का संख्या एवं नाम	संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का संख्या नाम	मतदान की तिथि
1	2	3	4
	13-मधेपुरा, एवं 25-खगड़िया।		
चतुर्थ चरण	14-दरभंगा, 22-उजियारपुर, 23-समस्तीपुर (अ0जा0), 24-बेगुसराय एवं 28-मुंगेर।	—	13.05.2024
पंचम चरण	5-सीतामढ़ी, 6-मधुबनी, 15-मुजफ्फरपुर, 20-सारण, एवं 21-हाजीपुर (अ0जा0)।	—	20.05.2024
षष्ठम् चरण	1-वाल्मीकिनगर, 2-पश्चिम चम्पारण, 3-पूर्वी चम्पारण, 4-शिवहर, 16-वैशाली, 17-गोपालगंज (अ0जा0), 18-सिवान एवं 19-महाराजगंज।	—	25.05.2024
सप्तम चरण	29-नालन्दा, 30-पटना साहिब, 31-पाटलीपुत्र, 32-आरा, 33-बक्सर, 34-सासाराम(अ0जा0), 35-काराकाट एवं 36-जहानाबाद।	195-अगिआँव (अ0जा0)	01.06.2024

2. निर्धारित निर्वाचन की तिथि को सवैतनिक सार्वजनिक अवकाश मात्र संबंधित लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र/विधान सभा उप निर्वाचन क्षेत्र के लिए ही रहेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गुफुरान अहमद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 341-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>